



BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED

F 196-199, F 178 & E 188, Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan, India – 334006

T: +91-151-2250350 | F: +91-151-2251814 | E: cs@bikaji.com | W: www.bikaji.com

CIN: L15499RJ1995PLC010856 | GST No.: 08AAICS1030P1Z5

Ref: BFIL/SEC/2023-24/128

Date: November 07, 2023

To
Dept of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001 (Maharashtra)
Scrip Code: 543653

The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051 (Maharashtra)
Trading Symbol: BIKAJI

Subject: Intimation of Newspaper Publication of the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on September 30, 2023

Dear Sir / Madam,

Pursuant to the requirements of the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“the Listing Regulations”), as amended from time to time, the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on September 30, 2023 as approved by the Board of Directors at their meeting held on Monday, November 06, 2023 is published in the “**Financial Express**” in English language newspaper and in “**Nafa Nuksan**” in Vernacular language newspaper on **Tuesday, November 07, 2023**. The copies of the newspaper publication are enclosed herewith for your reference.

The above intimation will also be hosted on the website of the Company and the same can be accessed at www.bikaji.com

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking you

Yours faithfully,
For Bikaji Foods International Limited

Rahul Joshi
Head - Legal and Company Secretary
Membership No.: ACS 33135

Enclosure: As above

Governors must act before states come to SC: CJI Bench

ANANTHAKRISHNAN G
New Delhi, November 6

AT A TIME when three state governments have moved the Supreme Court against their Governors for keeping Bills pending, a three-judge Bench led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Monday said Governors "must act" before the matter reaches the court.

Calling for some "soul-searching" by the governors as well as chief ministers, the Bench said governors "cannot be oblivious to the fact that they are not elected representatives of the people".

"Why do parties have to come to the SC? The Governors must act before it comes to the SC. Only after they come to the SC, the Governors start acting. This has to stop," the Bench, which included Justices JB Pardiwala and Manoj Misra, said. While the Bench was hearing a plea filed by the Punjab government, which said that Governor Banwarilal Purohit had kept seven Bills pending, the Kerala and Tamil Nadu governments have also filed similar pleas.

Fixing the next hearing for November 10, the court asked Solicitor General Tushar Mehta, who appeared for Purohit, to apprise it of "the action taken by the Governor" by then. Expressing doubts on the Punjab Assembly being



■ CJI says governors are not elected representatives, soul searching needed by them & chief ministers

adjourned sine die in March without being prorogued, the CJI said. "There is a little bit of soul searching required by the Chief Ministers, there is a little bit of soul searching required by the Governors. Because Governors also cannot be oblivious to the fact that they are not elected representatives of the people. The Governor can either withhold his assent, refer it to the President... they are duty bound... or they can return it once. And particularly on money Bills." "Honestly, my concern is this. Why should parties be required to move the Supreme Court for the convening of a Budget Session? We are a democracy which has been in

Will protect your culture: Rahul Gandhi to people of Mizoram



FORMER CONGRESS PRESIDENT Rahul Gandhi on Monday urged the people of Mizoram to vote for his party and said it was his guarantee that their culture, language and traditions will be protected.

In a post on X, Gandhi said, "To my brothers and sisters of Mizoram, when you go out to vote tomorrow, vote for Congress. We will protect your culture, language and traditions - That is my guarantee," he said and shared a video montage of his recent visit to Mizoram and also former Congress president Sonia Gandhi's recent video appeal to the people of the state to vote for the Congress.

Sonia Gandhi last Wednesday had appealed to the people of Mizoram to elect her party in the November 7 Assembly polls, saying this is a time for experiments and a vote for the Congress is one for peace, progress and prosperity in the northeastern state. PTI

Govt appointed new CIC without informing me: Adhir Chowdhury

MANOJ C G
New Delhi, November 6

IN WHAT COULD potentially deepen the trust deficit between the Opposition and the Centre, the appointment of Information Commissioner Heeralal Samariya as the Chief Information Commissioner Monday has triggered a political row. Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury, the Opposition member in the Prime Minister-headed high-powered selection committee, has said that the government neither consulted nor informed him about his selection.

Speaking to *The Indian Express*, sources close to Chowdhury said he had been told about a meeting, then the dates were changed because of which he had to reschedule his calendar, postpone his travel to Kolkata - only to find out that the CIC's name had been announced and he had not been told. According to the Right to Information Act, 2005, the Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a committee headed by the Prime Minister and comprising the Leader of Opposition in the Lok Sabha (in this case the leader of the largest Opposition party) and an Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister.

Chowdhury said officials of the Department of Personnel and Training (DoPT) had reached out to his office in the last week of October seeking his availability for the meeting of the Committee.

His office informed them that he was available in Delhi until November 2 and that he had to travel to West Bengal to attend a pre-scheduled meeting on November 3.

Chowdhury, however, received a communication from the DoPT informing him that the meeting of the Committee was scheduled to take place at 6 pm on November 3. He then wrote to Jitendra Singh, the Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, urging him to reschedule the meeting.

"As for the schedule of the meeting, my office was continuously in touch with officers concerned of the DoPT. It was informed in very clear terms that owing to a pre-scheduled function that I have to attend in West Bengal, it would not be possible for me to attend the meeting as per the schedule proposed," Chowdhury's letter dated November 1 said.



Adhir Ranjan Chowdhury, Congress MP

AGAINST THE RULES

■ Chowdhury has said that the government neither consulted nor informed him about his selection

■ The Centre appointed Heeralal Samariya as the chief Chief Information Commissioner on Monday

■ The post of CIC has been lying vacant following completion of Y K Sinha's tenure on October 3

without even informing him. Samariya was sworn in as the CIC by President Droupadi Murmu Monday at a function attended by Prime Minister Jai Prakash Narayan, Vice President Narendra Modi and Singh among others.

The post of CIC has been lying vacant following completion of Y K Sinha's tenure on October 3.

Sinha's appointments as CIC in 2020, too, came despite strong objections from Chowdhury at the meeting of the committee. A former IAS officer, Samariya had served as Labour and Employment Secretary. He was appointed Information Commissioner in November 2020.

Incidentally, in September, hours after the Centre named an eight-member high-level committee headed by former President Ram Nath Kovind to "examine and make recommendations for holding simultaneous elections" to Lok Sabha, state assemblies, municipalities and panchayats, Chowdhury declined to be a part of the exercise.

Limit requests for login/logout details to heinous cases: Meta to Delhi Police

MAHENDER SINGH
MANRAL
New Delhi, November 6



CAP REQUIRED

■ The tech giant said that all requests should include a brief background of the case

■ It was also suggested that a cap should be put on the number of queries and quality requests be prioritised

official information that the last seen IP address and the current IP address. It was also informed that if an account is blocked, no IP information can be provided due to its unavailability," the officer said. According to sources, the Meta team clearly stated that requests sent to police should include a brief background of the case, explain the relevance of the information sought in connection with the alleged crime, and mention the role of individuals involved in order to enable a more effective response.

During the interaction, which lasted for about three hours, the Delhi Police raised several queries, including on providing transactional details (login and logout records), hash values of content, identification of message originators on the same platform, IMEI and device details, and methods for restoring a Meta account.

Commissioners of Police (DCPs) of districts and specialised units, along with Station House Officers (SHOs) of cyber police stations. "The Meta officials asked the Delhi Police to not ask for login or logout details in every case. They emphasised that these details should preferably be sought only in cases of heinous nature or cases of significant gravity. They have also asked to limit requests for substantial volume of data from social

media intermediaries," said a Delhi Police officer. "After the interaction, it was also suggested that a cap should be put on the number of queries and quality requests be prioritised. They recommended that requests to WhatsApp should be directed to their corporate address in the United States," the officer said.

"The Delhi Police asked about the types of IP addresses provided by WhatsApp in a case. On this, the concerned

NEEL INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51109WB1983PLC036091
R/o: 88B, (Ground Floor), Lake View Road, Kolkatta-700029
Corporate Office: 14113, Civil Lines, 402-403, Kam Chambers, Kanpur-208001
E-Mail: neel@neelindia.com, neelindustrieslimited@gmail.com
Mob: Corp Office: +91 8953388915, website: www.neelindia.com
EXTRACT FROM THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

(All amounts in Rs. Lakhs except earnings per share data)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter ended on Year ended		Half Year ended	
		30-Sep-2023	31-Mar-2023	30-Sep-2023	31-Mar-2023
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1.	Total Income from Operations	78.14	295.57	75.38	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and Extraordinary items #)	74.35	243.99	62.79	
3.	Net Profit / (Loss) for the period (after tax, (after Exceptional and Extraordinary items #)	74.35	243.99	62.79	
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary items #)	58.35	185.18	46.79	
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	58.35	185.18	46.79	
6.	Equity Share Capital	1,955.32	1,955.32	1,955.32	
7.	Reserves (including Revaluation Reserve)	3,637.61	3,533.25	3,446.22	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations):				
1.	Basic	0.29	0.85	0.24	
2.	Diluted	0.29	0.85	0.24	

NOTES:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Un-Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Un-Audited Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also available on the Company's website www.neelindia.com.
2. The above Quarterly Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on November 06, 2023.

For Neel Industries Limited
Arvind Kumar Mittal
(Managing Director)
DIN: 02016445

Date: November 06, 2023
Place: Kanpur

UJJIVAN
Build a Better Life
Ujjivan Financial Services Limited
L5699AD04PLC035292
Registered Office: Grape Garden, No. 27, 3rd A Cross, 18th Main, 4th Block, Koramangala, Bengaluru 560095 Phone: +91 80 4071 2121 Email: compliance@ujjivan.com

Statement of Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023 (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Half Year ended	
		Sep 30, 2023	Sep 30, 2022	Sep 30, 2023	Sep 30, 2022
		Unaudited			
1.	Total Income from Operations (Net)	1,55,818	1,09,951	3,01,415	2,15,618
2.	Net Profit / (Loss) before tax, exceptional and Extraordinary items #	41,426	43,725	82,179	81,717
3.	Net Profit / (Loss) after Exceptional and Extraordinary items #	41,426	43,725	82,179	81,717
4.	Net Profit / (Loss) after tax (after Exceptional and Extraordinary items #)	30,882	31,536	60,724	61,063
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	31,194	31,589	60,956	61,116
6.	Paid up Equity Share Capital	12,171	12,168	12,171	12,168
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-
8.	Earnings Per Share (EPS) Basic (₹)	18.58	21.12	36.63	41.35
	Diluted (₹)	18.29	21.12	36.14	41.35

Key numbers of standalone results are as under:

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Half Year ended	
		Sep 30, 2023	Sep 30, 2022	Sep 30, 2023	Sep 30, 2022
		Unaudited			
1.	Total Income from Operations (Net)	7,600	189	9,036	359
2.	Profit Before Tax	7,530	126	8,892	217
3.	Profit After Tax	6,541	93	7,713	161

Notes:
1. The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on November 06, 2023.
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended September 30, 2023 is available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the company's website www.ujjivan.com.
3. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended).

By order of the Board
For Ujjivan Financial Services Limited
Sami Ghosh
Non-Executive Chairman
DIN: 00163369

Place: Bengaluru
Date: November 06, 2023
www.ujjivan.com

Sale of 29th tranche of electoral bonds starts



THE SALE of the 29th tranche of electoral bonds started on Monday amidst assembly elections in five states - Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana and Mizoram.

This round of electoral bonds comes in a short interval of about a month after the 28th phase, which opened for sale on October 4.

The government approved issuance of the latest round of electoral bonds, days after the Supreme Court reserved its verdict on a batch of petitions challenging the validity of the electoral bonds scheme for funding political parties.

On October 31, a five-judge constitution bench comprising Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justices Sanjay Khanna, B.R. Gavai, J.B. Pardiwala and Manoj Misra commenced hearing arguments on the four petitions,

including those filed by Congress leader Jaya Thakur, the Communist Party of India (Marxist) and NGO Association for Democratic Reformers. After the detailed hearing on the matter, the apex court reserved the judgement on November 2. Two days after this, the government issued notification for issuance of latest round electoral bonds.

It is to be noted that Mizoram and the first phase of Chhattisgarh assembly polls are to be held on November 7. The polling in all these states would end on November 30, and counting of votes would be done on December 3.

The Electoral Bonds scheme, which was notified by the government on January 2, 2018, was pitched as an alternative to cash donations made to political parties as part of efforts to bring in transparency in political funding. PTI

INDIA'S FAVOURITE SNACKING PARTNER

BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED
Registered Office: F 196-199, F 178 & E 188, Bichwai Industrial Area, Bikaner Rajasthan 334006 CIN: L15649RJ1995PLC010856
Tels: +91 151-2250350, E-mails: cs@bikaji.com, Website: www.bikaji.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023

(All Amounts in INR Lakhs, Unless Otherwise Stated)

PARTICULARS	QUARTER ENDED		HALF YEAR ENDED		YEAR ENDED
	September 30, 2023	June 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2022	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total revenue from operations	68,886.77	48,205.54	57,897.29	1,30,076.21	99,613.05
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	7,518.08	5,584.55	5,883.11	33,102.55	7,762.08
Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	7,518.08	5,584.55	5,883.11	33,102.55	7,762.08
Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	5,976.19	4,141.01	4,092.57	16,119.20	5,642.36
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	5,973.32	4,138.36	3,840.82	16,105.48	5,143.15
Equity Share Capital	2,500.29	2,495.10	2,500.29	2,495.10	2,495.10
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	92,868.92
Earnings per share (of INR 1/- each) (not annualised)					
Basic	2.45	1.67	1.67	4.12	2.32
Diluted	2.45	1.67	1.67	4.12	2.31

The Key numbers of standalone audited financials results of the company are as under:

PARTICULARS	QUARTER ENDED		HALF YEAR ENDED		YEAR ENDED
	September 30, 2023	June 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2022	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total revenue from operations	59,549.81	47,739.83	56,195.31	1,37,508.84	98,357.69
Net Profit before tax	7,991.36	5,998.93	6,679.93	33,799.29	8,225.05
Net Profit after tax	6,113.81	4,473.03	4,329.38	16,588.04	6,122.33

Notes:
The above is an extract of detailed format for quarterly unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the quarterly financial results are available on the website of the Stock Exchange where shares of the Company are listed (i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the website of the company i.e., www.bikaji.com

For and on behalf of the Board of Directors of Bikaji Foods International Limited
CIN: L15649RJ1995PLC010856
Deepak Agarwal
Managing Director
DIN: 00179295
Place: Bikaner
Date: November 06, 2023

BIKAJI

Amiji Loves Bikaji

Call : +91-151-2250350 • E-mail: care@bikaji.com • Website: www.bikaji.com • Follow us on: [Facebook] [Instagram] [Twitter] [YouTube] [LinkedIn]

AN ISO 9001 AND ISO 22000 CERTIFIED ORGANIZATION

BHUIJA • NAMKEEN • SWEETS • PAPAD • SNACKS

New Delhi

